

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 सितंबर 2022

प्रश्न -1

"द हीरो ऑफ टाइगर हिल: ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परम वीर" नामक एक नई पुस्तक किस निम्नलिखित लेखक के द्वारा लिखी गई थी?

- A) योगेंद्र सिंह यादव
- B) रघुराम राजन
- C) डॉ मनमोहन सिंह
- D) अमर्त्य सेन

सही उत्तर: A

आत्मकथा "द हीरो ऑफ टाइगर हिल: ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परम वीर" सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव द्वारा लिखी गई थी।

प्रश्न -2

67वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म लोकप्रिय श्रेणी पुरस्कारों में "सर्वश्रेष्ठ फिल्म" थी?

- A) शेरशाह
- B) सरदार उधम
- C) मिमी
- D) 83

सही उत्तर: A

शेरशाह 67वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में लोकप्रिय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 सितंबर 2022

प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किसने अपना नया केंद्रीकृत पोर्टल 'ई-समाधान' शुरू करने की घोषणा की है?

- A) CBSE
- B) फार्मैसी काउंसिल ऑफ इंडिया
- C) UGC
- D) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

सही उत्तर: C

छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए UGC का केंद्रीकृत पोर्टल, ई-समाधान हाल ही में लॉन्च किया गया था।

प्रश्न -4

भारतीय रेलवे ने मुंबई स्टेशनों पर निम्नलिखित में से कौन सी मशीन स्थापित की है जो हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में परिवर्तित करती है?

- A) एकवावाटर
- B) जलदूत
- C) जलजीवन
- D) मेघदूत

सही उत्तर: D

भारतीय रेलवे ने दादर, ठाणे और मुंबई मंडल के अन्य स्टेशनों पर "मेघदूत" मशीनों की स्थापना की है जो हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करती है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 सितंबर 2022

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किसने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड (AVIL) और उसके निदेशकों पर जुर्माना लगाया है?

- A) NABARD
- B) PFRDA
- C) RBI
- D) SEBI

सही उत्तर: D

आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड (AVIL) और उसके निदेशकों पर लिस्टिंग आवश्यकताओं और अंदरूनी व्यापार कानूनों को तोड़ने के लिए पूंजी बाजार नियामक SEBI द्वारा कुल 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किस देश में नागेश सिंह को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है?

- A) USA
- B) UK
- C) थाईलैंड
- D) फ्रांस

सही उत्तर: C

नागेश सिंह, वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव, को थाईलैंड साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 सितंबर 2022

प्रश्न -7

अगस्त 2022 में कुल कितना GST राजस्व एकत्र किया गया था?

- A) 1.48 लाख करोड़ रुपये
- B) 1.44 लाख करोड़ रुपये
- C) 1.43 लाख करोड़ रुपये
- D) 1.40 लाख करोड़ रुपये

सही उत्तर: C

वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा कि अगस्त 2022 में सकल GST राजस्व संग्रह 1.43 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 28% अधिक है।

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किस शहर में "होम्योपैथि के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन" का पहला संस्करण आयोजित किया गया?

- A) बर्लिन
- B) दुबई
- C) नई दिल्ली
- D) पेरिस

सही उत्तर: B

"होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन" का पहला संस्करण दुबई में "जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले रोग" विषय के साथ आयोजित किया गया था।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 सितंबर 2022

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) क्रिस सिंकलेयर
- B) कल्याण चौबे
- C) लक्ष्मण नरसिम्हन
- D) महमूद खान

सही उत्तर: B

पूर्व मोहन बागान और पूर्वी बंगाल के गोलकीपर कल्याण चौबे चुनावों में भारत के पूर्व कप्तान भाईचुंग भूटिया को 33-1 से हराकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं।

प्रश्न -10

नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री "अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स" में उनके नरेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे एमी अवार्ड मिला है?

- A) बराक ओबामा
- B) शाहरुख खान
- C) रतन टाटा
- D) बिल गेट्स

सही उत्तर: A

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री "अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स" के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का पुरस्कार जीता।